



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 06.01.2021

साइबर सेल शामली

साइबर सेल शामली द्वारा सेना के जवान से धोखाधड़ी कर लाखों रूपयों की ठगी होने पर त्वरित कार्यवाही कर वापस कराई धनराशि, अभियोग दर्ज:-

अवगत कराना है कि सेना के जवान, श्री गौरव मलिक पुत्र श्री रूपेन्द्र मलिक निवासी ग्राम कुड़ाना थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा दिनांक 04.01.2021 को साइबर क्राइम सेल शामली में सूचना दी कि वह सेना में जवान हैं, छुट्टी पर घर आ रहा था। दिनांक 31.12.2020 को उसका पंजाब नैशनल बैंक का एटीएम कॉर्ड दिल्ली में कहीं गिर गया। एटीएम खोने पर उसके द्वारा कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर एटीएम ब्लॉक कराने का प्रयास किया परन्तु कॉल रिसीव न होने के कारण एटीएम ब्लॉक नहीं हो सका इसी दौरान उसके पास नम्बर पर 6374465480 से कॉल आयी जिस पर बोलने वाले ने खुद को पीएनबी बैंक नोएडा की मुख्य शाखा कर्मचारी बताते हुए उसने मेरे गुम एटीएम की जानकारी करते हुए उस संबंध में टैक्स्ट मैसेज के माध्यम से लिंक भेजा और उसे ओपन करने के लिए कहा साथ ही बैंक कर्मियों के द्वारा कहा गया कि उसके नंबर पर 24 घंटे के बाद एक ओटीपी आयेगा जिसके उपरान्त एटीएम कॉर्ड ब्लॉक हो जायेगा। दिनांक 01.01.2021 को सायं करीब 06 बजे उसके मोबाइल पर ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद पुनः उसी मो0न0 6374465480 से कॉल आई और ओटीपी नंबर की जानकारी एटीएम ब्लॉक करने की कहकर ले ली गयी। उसके द्वारा ओटीपी बताये जाने के उपरांत उसी रात्रि उसके खाते से तीन ट्रांजेक्शन 02-02 लाख रूपये के कुल 06 लाख रूपये निकाल लिये गये, जिसकी जानकारी उसे मैसेज द्वारा हुई। उपरोक्त प्रकरण में बैंक कर्मचारी बनकर जवान से धोखाधड़ी करके करीब 6,00,000/-रूपये का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रसिद्ध ई-वालेट के माध्यम से कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर जवान गौरव की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ऑनलाइन ठगी के इस मामले में जाँच साइबर सेल के सुपुर्द हुई, जिसके द्वारा त्वरित कार्यवाही कराते हुए उक्त प्रकरण से जुड़ी समस्त डिजिटल जानकारियों को विभिन्न इन्टरमीडिरीज से कर गहनता से विश्लेषण कर सम्बन्धित बैंक/ ई-वालेट से सम्पर्क कर ठगों द्वारा इस्तेमाल किये गये बैंक खातों को फ्रीज कराते हुए जवान के खाते में धनराशि वापस कराई गयी है जिससे सेना के जवान को राहत मिली है। उक्त धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

वापस कराई गई धनराशि:-

1. वापस कराई गयी धनराशि 4,99,806/- रूपये।

साइबर टीम:-

1. उ0नि0 श्री कर्मवीर सिंह प्रभारी साइबर क्राइम सेल शामली।
2. का नितिन कुमार साइबर क्राइम सेल शामली।
3. का0 अर्चित कुमार साइबर क्राइम सेल शामली।
4. म0का0 ममता साइबर क्राइम सेल शामली।